

सैहत के लिए बनाई मोटे अनाज की मिठाइयां

डिटिविव ग्रुप रिपोर्ट
इंदौर। अंतरराष्ट्रीय मिलेटरस काउंटर होने के बाद पूरे विश्व में मोटे अनाज को लेकर डिमांड घुब घुब गई है। पोषण और स्वाद को ध्यान में रखते हुए इंदौर के सोरेंटन डेट ग्रुप ने मिलेटरस से बनी मिठाइयों के कई डिजाइन इमेरा लांच किए हैं, जिसमें मिठाइयों के लिए कई बेकरात कॉम्बो शामिल हैं। सोरेंटन डेट ग्रुप के एजीओकेयूएम रोम, काम डोगरा ने कहा मिठाइयों से बनी मिठाइयों के साथ डिवाइटी को टैगटो वही है। मिठाइयों का उच्च गुणवत्ता से बनाई जा सकता है। मिठाइयों डिजाइन ईमर के बारे में सोरेंटन डेट ग्रुप के जनरल मैनेजर 'सोहेल भास्करणी' के साथ, इंदौरियों के लिए लीडर का मतलब है खाना, सोरेंटन सोरेंटन ईमर आयु है 12 अलग अलग तरह के मिश्रण ईमर विभिन्न ब्रांड तरह की स्टाइलड मिठाइयां शामिल हैं। बेसन, गुजब, मीर और मिलेटरस से बनी बर्फी, लूट और चॉकलेट के अलावा इमर में कई ऐसे बेकरात मिठाइयों कॉम्बो लीकर किच है जो डे टो लीडर पर आके लिए एक इन्फेन्स उपाय हो सकता है। इन मिठाइयों को 7 दिनों तक उपभोग में लाया जा सकता है।

डॉ. द्विवेदी बने विवि में निकाय सदस्य

डिटिविव ग्रुप रिपोर्ट
इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा उच्च शिक्षा अर्थात्का विचारविचारण के राशी निकाय में डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी (ओरिएन्टल एण्ड सुल्फु मिनेरल, चॉर्टन सेनू इन्स्टीट्यूट, इंदौर) का सदस्य होना मनोनायक किया गया है। इस उपलब्धि पर इंदौर-उज्जैन संघर्ष के शिवाजीयों एवं सम्प्रदायियों ने डॉ. द्विवेदी को बधाई दी है। शिक्षा विभाग एवं प्रदेश निजी शिक्षणालय विनियमक आयोग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत मनोनायक डॉ. द्विवेदी प्रदेश शासन के नैतिकी के रूप में अपनी सेवाएं देते। प्रबंधनक, उद्यमिता उच्च शिक्षा एवं प्रशासकीयक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। द्विवेदी के पास 16 'डिग्री' अकादमी हैं। उन्होंने एन एचसी-एन के क्षेत्र में 21 से अधिक पुरस्कारों का लेखन एवं संवर्द्धन भी किया है। इंदौर एकाका के सॉल्ट एकाका के बन्स ललाकार 7 वर्ष से अधिक दे रते हैं। द्विवेदी का सम्मान सुप्रसिद्ध एन राजनकर द्वारा किया गया है। डॉ. पुनीत द्विवेदी सचिवकर मानाक के प्रमुख एवं एमटीए मंत्र को भूमिका में हैं।



डॉ. पुनीत द्विवेदी

इंदौर को मिलेगी 150 बसें, अभी दौड़ रही है 40

इंदौर को 150 और भोपाल को 100 बसें

प्रदेश के छह राज्यों को 552 बसें मिलेंगी। इन्होंने इंदौर को 150 के अलावा भोपाल, जबपुर, उज्जैन को 100, ग्वालियर को 70 और राठौर को 32 बसें मिलेंगी। अभी इंदौर में करीब 40 ही बसें चल रही हैं। इंदौर में बस के संकलन की दर प्रति मिलेटरस 76 रुपये है। इंदौर में जलपन रूप से बस संकलन से राहत तो जा रही है, जल्दिकत कम खर्ची बसें चलू पर बसें को प्रति मिलेटरस पर बकायत बड़े का भुगतान किया जा रहा है।

भार बसें का संचालन करने वाले नगरीय निकायों को ही उद्दान चाहिए। अगर नगरीय प्रशासन विभाग ने भुगतान अर्जन लेबल नहीं (सूचक) के अंतर्गत की राशि से करने का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। जिसे स्वीकृतित के बाद गुजरात सचिव काकाबन के संदेश सरकार को भेजा जाएगा। उदाहरण पर

सचिवी बनती है तो फिर इ-बसें खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में खर्च है कि प्रदेश में इ-बसें का संचालन करने में एक साल से ज्यादा का समय लगेगा।

'खोजन' में एक एजेंसी को खरीदार उतकरा संकलन प्रति मिलेटरस के अर्जन करेगी। वहीं, बसें में नयायों से किचिया यरुकी का काम दूरी एजेंसी

देखेगी। इन्होंने संचालन करने वाली कंपनी को लव राशि का भुगतान दर मासिक किया गया है। यदि बसें का संचालन से बन्माई नहीं होती है तो उभरकर संचालन के लिए केंद्र सरकार ने 'पेमेंट गारंटीजोटी' मैकेनिज्म को शर्त बनाई है। इन्होंने कहाई के बाद 'पेटे' की थाराई करने के लिए कोर्ट जाओगी गई है। इसके छोड़े का कारण पाया होने पर थाराई का संचालन बंद करने वाली सिविलि नई निमित्त होने देना है। कहाई, संचालन कंपनी को टैरिफ्ट ईस के लिए 2.2 अरब, मिडी बस के लिए 2.2 अरब मिला बसें के लिए 20 रुपये प्रति मिलेटरस भुगतान करेगी। टैरिफ्ट कंपनी को उदा खान मिलने वाली राशि में दर साल बढ़ाती हो सकती है।

कैलाश विजयवर्गीय ने विष्णु प्रसाद शुक्ला को किया नमन

डिटिविव ग्रुप रिपोर्ट
इंदौर। शिक्षावर्ष क्षेत्र अर्थात्: 1 से भारतीय जनता पार्टी के प्रयागी कैलाश विजयवर्गीय ने गुजरात को खर्चत भाजपा नेता एवं, विष्णु प्रसाद शुक्ला को जलने पर उन्हे 'भाजपी' में 'दंडावली' अर्थात् को। उन्होंने कहा 'कड़े भेष' इमरा अपने डिवाइटी में शामिल करने वाले थे। वे विजयवर्गीय की शिवाजीयों में भी अपने मिठाइयों, एकाका एवं 'पुडिंग' जैसे पर अडान रहे। तत्कालीन कर्मेश शासन में उन्हे 'अधिक' एवं 'भाजपी' की पराजित किया गया, फिर भी वे भाजपा के एक अग्रणी लॉयर् के रूप में कार्य करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा के लक्ष्यों काकलनकों के प्रयासोंत बड़े भेष को जलने पर उन्हे नमन किया - 'पुडिंग' जैसे है कि मुझे उन्के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मौलाकार है कि पुनीत में कैलाश विजयवर्गीय के कांशीयें प्रशंसी संजय शुक्ला विष्णु प्रसाद शुक्ला के पुन है।

1550 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों पर बनाए गए 103 सहायक मतदान केन्द्र

विद्यमानका क्षेत्र क्रमांक 5 में सबसे ज्यादा 13 सहायक मतदान केन्द्र

डिटिविव ग्रुप रिपोर्ट
इंदौर। प्रदेश के 10 जिलों में 1550 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों पर 103 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन्होंने भोपाल, छतरपुर, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबपुर, कटनी, उज्जैन, ग्वालियर और उज्जैन जिले शामिल हैं। बजट निष्पत्ति आयोग द्वारा प्रदेश में शिक्षावर्षक 2023 के लिए 1550 से अधिक मतदाता केंद्रों वाले 103 सहायक केंद्रों के लिए सहायक मतदान केंद्र बनाने का अनु्येदन प्रदान किया गया है।

मुजु निर्वचन पदाधिकारी अनुभव राजन ने बताया कि इन शिक्षावर्षका निर्वचन क्षेत्रों में बनार 'ए' है सहायक मतदान केंद्र -

- इंदौर** क्षेत्र की रिवाज
- देवासपुर के 1
- इंदौर-1 के 2
- इंदौर-2 के 2
- इंदौर-4 के 1
- इंदौर-5 के 23
- डॉ. अमरेशकर राम म्हु के 9
- राठ के 27
- राठौर (अ.जा.) के 7 सहायक केंद्र।

कटाक्ष

आभी तक किसीने नाम टापसी के लिपे देखा ही नहीं बनाया! अमानत अस्त हमेशा!

www.detectivegroupreport.com

बूथों की बिजली व्यवस्था संभालेंगे 2000 कर्मचारी

मुख्य अभियंता करेंगे सतत निगरानी

डिटिविव ग्रुप रिपोर्ट
इंदौर। भारत निर्वचन आयोग द्वारा बूथों पर संपूर्ण व्यवस्था के आदेश के संदेशन मध्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भी ठीको मुख्य अभियंताओं को चुनाव के संदेशन बूथों की समीक्षा करके निवेदन किया है। कंपनी के करीब 520 इंजीनियरों समेत दो हजार कर्मचारी इस व्यवस्था को संभालेंगे। सघनपदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि बूथों पर विजली वितरण के लिए इंदौर व उज्जैन के मुख्य अभियंताओं समेत सभी 15 जिलों के अभियंता शामिल, 55 डिवाइजनों के कार्यवाहन अभियंता अपने लक्ष्यों के बूथों को संपूर्ण व्यवस्थाएं करारेंगे। इसके साथ ही जोन, विभाग केंद्रों पर सदस्य 450 सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता भी बूथों को विजली व्यवस्था को समीक्षा करेंगे, यदि दूरदाज के किसी बूथ पर स्थानीय निवासी कनेक्शन नहीं है, तो बाह्य अस्था कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। श्री तोमर ने बताया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि 15 अभियंता अभियंताओं

लिए इंदौर व उज्जैन के मुख्य अभियंताओं समेत सभी 15 जिलों के अभियंता शामिल, 55 डिवाइजनों के कार्यवाहन अभियंता अपने लक्ष्यों के बूथों को संपूर्ण व्यवस्थाएं करारेंगे। इसके साथ ही जोन, विभाग केंद्रों पर सदस्य 450 सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता भी बूथों को विजली व्यवस्था को समीक्षा करेंगे, यदि दूरदाज के किसी बूथ पर स्थानीय निवासी कनेक्शन नहीं है, तो बाह्य अस्था कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। श्री तोमर ने बताया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि 15 अभियंता अभियंताओं

एवं 55 कार्यवाहन अभियंताओं को संबंधित जिला निवांचन अधिकारी एवं रिजिनी अधिकारी से सतत सलाहले बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि बूथों पर बाह्य निवांचन अधिकारी के अतिरिक्तसुकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। 520 इंजीनियरों के अलावा करीब 1500 आम कर्मचारी, लघुनिवेदन, पश्चिम सहायक, सुपरवाइजर अधिकारी भी सेवाएं देंगे। बूथों पर संबंधित इकाई के लघुनिवेदन के मोबाइल नंबरों की सूचना पत्र भी लगाएंगे, ताकि लघुनिवेदन आवकपत्रा होने पर तुरंत बूथ पर हाजिर हो जाएं।

सांवर के लिए हमेशा समाविष्ट रहे हैं सिधिया

डिटिविव ग्रुप रिपोर्ट
इंदौर। केंद्रीय मंत्री जलविद्युत विभाग प्रमुख को सेंसर से भाजपा बूथों तुरन्ती सिलेक्शन के संकलन में सजा को समाविष्ट करने पड़ेगी। सेंसरों की संख्या में सिलेक्शन को सुदुरे के लिए भेड उन्गी भी। इस अवसर को समाविष्ट करने के लिए सिलेक्शन को सेंसर के लिए सेंसर समाविष्ट रहे हैं। विजय 2 पर कलकत्ता की नदी की नदी का नाम 'सांवर' है। सांवरिनीने संसद सेंसर बंद कर दी थी लेकिन, जलविद्युत विभाग ने जल के लिए सहायक को सहायक पर सजा दिया है। सिलेक्शन परिवार कर्मचारी के किशन, पिल्ल, गुज के साथ अन्वयन न होने दिख है न होने देगा।

पीएफआई पर बैन लगाकर मोदी ने देश-विरोधी गतिविधियों को जड़ से खत्म किया : शाह

पीएम नरेंद्र मोदी चार नवंबर को रतलाम में

◆ चुनावी सभा को संबोधित करंगे 15 तक लगातार दोरे

■ डिजिटल ग्लोबल रिपोर्ट
 नई दिल्ली। मोदी 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सुरक्षा विभाग की अग्रणी शक्ति के कुशल मार्गदर्शन में पीएफआई के सभी शाखाओं में पीएफआई को एक ही इकाई में परिवर्तित कर देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का अमूर्तपूर्ण काम किया गया है। अतंकवाद में यह सब हो चुका है कि देश में किसी भी आतंक के लिए कोई जगह नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने छिंदवाड़ा में



संबोधित करते हुए कमलनाथ पर जबरन निषान सभा अमित शाह ने कहा कि, कौन नहीं जानता कि मोक्ष के रास्ते पर फोड़ना, अगस्त ब्रेकट पैड फोड़ना, इसके पीछे, कियान कहां मारपी फोड़ना, मेरे कोसल जैसे बरे फोड़ने कमलनाथ से जुड़े हुए हैं। पिछले 9 सालों में मोदी जी ने मोक्ष के रास्ते पर फोड़ने के माध्यम से एक से

बाहर एक काम हुए हैं। कौसल के जमाने में जल, जंगल और जमीन को बहा लेते थे, लेकिन अब जल, जंगल, जमीन के साथ सूख, समान और समावेशी विकास को बहा लेते हैं। आतंकी के बाद दरवाजे तक किसी भी सरकार ने एक्टिविटी के पद पर आधिकारिक को नहीं बेनाया, लेकिन मोदी-शाह को जोड़ने ने एक सॉल्यू आधिकारिक नेटवर्क प्रोवैडू को महासिमा एक्टिविटी का दबा देकर आधिकारिक समाज को समान देना का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एकबारगी नेटवर्क है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आधिकारी नेत, विकास और सिसी है।

■ डिजिटल ग्लोबल रिपोर्ट
 भोपाल। प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रसन्न में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार को तेजी सेब कर दी है। प्रधान में राजनीति नेटवर्क मोदी, गृहमंत्री अश्वयंशू नेतृ और गृहमंत्री अश्वयंशू नेतृ मोदी चार नवंबर को रतलाम में तेजी को संबोधित करंगे। वहीं, एस रिज केंद्रीय नवंबर अमित शाह रिजगुणी आ रहे हैं। दरम्यान चार प्रान्तीय नेटवर्क मोदी को 15 नवंबर तक लगातार सियांय प्रसारित है।

प्रधानमंत्री को प्रस्तावित तेजी में चार पांच नवंबर को सिवनी के लखनवदन और खंडवा, सात नवंबर को रातन और सोबी, आठ नवंबर को पुना, मूना और पारिया, 10 नवंबर को नीमच और बड़वाली, 13 नवंबर को छतरपुर, 14 नवंबर को खरौरी और खड्डाउअ, 15 नवंबर को बैलून में तेजी करे।

कौन असली जय-वीरू? छिड़ी जुबानी जंग

■ डिजिटल ग्लोबल रिपोर्ट
 भोपाल। एएमपी पॉलिटेक्निक के असली 'जय-वीरू' कौन हैं, इस पर बीजेपी और काँग्रेस के बीजे जुबानी जंग लगातार जारी है। गृह मंत्री को इस फिलिम 'बहस' में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह माना और ज्योतिरावित सिधिया भी कुछ पद। हालांकि दोनों के बयान एक-दूसरे से विपरीत अलग थे। वहीं काँग्रेस ने बीजेपी द्वारा 'जय-वीरू' का टैग उन्प्रेषण कर पर काँटिडिक्ट बना दिया।

'नरेंद्र सिंह माना - इस तो जय-वीरू' पहले से दिवस में सीटिंग से चर्चा के दौरान कहा- वे (कमलनाथ-सिधिया) जय-वीरू आउर बने हैं, इस लोग (सिमा-शिरकार) तो बंद हिन्दी से ज्योतिरावित सिधिया-जय-वीरू तो खरे हैं ही... सिधिया ने बरेर को जन सभा में कहा- बंदे भाई और छोटे भाई में प्रश्नचार्ज किया। बल्लभ भागत को प्रश्नचार्ज के बंदे बना दिया। प्रश्न में तो उद्देश्य नहीं लाने, पर नया उद्देश्य तो आने - टूटनकर उद्देश्य का? (सुबेकारने के बयान पर कि नाथ-दिग्गियन जय-वीरू है) जय-वीरू का फिलिम में क्या लोग क्ष? साक्ष्य का महासिचन खुद कहा रहा है कि जन-वीरू (समाजिक) विल्लयव...वोर ही।' सीजेपी बैठक में बस करे, फोन नम्बर-वीरू को जयना-कमलनाथ... टूटिड कर कहा- प्रश्न को संताना बहाली है कि उसके मुकाबले पर चर्चा हो लेकिन भागत के नेताओं को फिलिम बांधी सुझ रही है। शिरकार को भी अजबारी तो पहले से ही महसूस है, अब नरेंद्र तोसर जो भी फिलिम पात्रों पर आतंक कर रहे हैं। बेखतर होना भयानक एक साधारण नेक सुझावरक यह सब कर ले कि उनके यहां कौन नम्बर है, कौन सांथा।'

यूपी के मुकदमे में रोका, नर्मदापुरम के 37मजदूरों का पेंसंट

■ डिजिटल ग्लोबल रिपोर्ट
 नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिले के 37 मजदूरों को आंध्रप्रदेश से जाकर काम कराने का मुकदमे में मजदूरों के रमर रोष किया। मजदूरों की शिकायत के बाद श्रम विभाग नर्मदापुरम ने 37 मजदूरों की 5-40 लाख करण का भुगतान कराया। श्रम विधिकर जिला अदालत ने कहायू यूरी के मुकदमा काम कराने के लिए जिले के 37 मजदूरों को आंध्रप्रदेश के ग्राम कंठारवल्ली ले गया था। यहां एक युवा फेक्टरी के बगिये में आम छटाई, लौडिन अनवॉलेंटि करणे का मजदूरों से काम करवाया जांच सांते पाले जून में उन सभी मजदूरों को पालन सांते पाला बना दिया गया। मुकदमा दुरु शर्मिको को कुछ फिसा दिया गया, बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था। मजदूरों ने श्रम विभाग नर्मदापुरम में शिकायत पाले में शिकायत की। शिकायत को संतान में लिया गया। इकतून राई करणे से संतान किया गया। फेक्टरी के बंद कर दिए गए श्रम विधिकर जिला अदालत द्वारा संतान के मुकदमा डेक्रेट से सभी 37 शर्मिको को बकाया राशि 5 लाख 4 हजार करण का भुगतान कराया। श्रम विभाग को लगभग 2 साल पारसंत करारों के बाद शर्मिको को उनका बकाया पारिश्रमिक मिला।

बाँयफ्रेंड और दोस्तों पर लगाया गैंगरेप का आरोप

■ पीडित पर पुलिस का संदेश
 आधापार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के पड़ाया शाना पब्लिकर नुसुबत सुबह एक युवती ने शिकायत की है कि उसके बाँय फ्रेंड के दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप को पारतन को अंडाज दिया है। सुन-आली पुलुताड में युवती पीडित को रात आतंनक अडरवासी में उतारने के लिए पुलुताड की तो आ आतंनक की संसदा दो करी है। शिकायत पुलिस पीडित को शिकायत पर मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।

जांच कर कार्यवाही करने की कही बात

शाना प्रमोरी का कहना है कि युवती ने बले आतंनक गैंगरेप की शिकायत की है, जो मामला पुलिस के हाथ में है। उतारने में पीडित हिदाईत है रात है। शिकायत को पुलिस की शिकायत पर मामला दवा कर जांच की जा रही है जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

2000 का नोट बना सिर दर्द

◆ सैकड़ों किमी दूर से भोपाल पहुंच रहे लोग, बोलें- बैंकों में जमा करने दिया जाए

■ डिजिटल ग्लोबल रिपोर्ट
 भोपाल। राजधानी भोपाल स्थित भारतीय रिजर्व बैंक में 2000 के नोट बदलवाने का सिलसिला जारी है। प्रश्न में आरबीआई का एकनाम प्रेसडन आशिष भोपाल में है, इरदिलि प्रेसडन से सक्ती संसदा ने जांच पूंच रहे हैं। सुबसे से ही आरबीआई के बाहर भांडे देने को मिल रही है। दूरसे रजमों से भी लोग नोट इचॉपिंट/एम्बरजेन करवाने आ रहे हैं।

लखन में खाड़े लोणे ने बहाण कि नोट बदलवाने के लिए दूर से टोकाज दिया जा रहा है। अंदर रिजर्वबैंकीटी प्रेसडन के बाद फीमं प्रमन रिजर्वबैंकीटी काउंटर पर आधार करके की प्रेसडनमें मोजे जा रही है। पीडी प्रेसडन में डेडे से दो पते रजम रहे हैं। अतिशकर लोणे का कहना है कि पात्रों में रखे नोट दिखवती की रसक में मिले है, जिन्हें

बदलने आर है। हालांकि, कुछ लोग जानकारी का अडवा लोणे हैं। अडवा लोणे के रजम रहे हैं। अडवा लोणे के प्रम रजम रहे लोणे लक्ष्मी प्रमन रसू पूंचे दिखवती के साथ सुबसे को आरबीआई अतिशर पूंचे। लक्ष्मी मोजे जा रही है। पीडी प्रेसडन में डेडे से दो पते रजम रहे हैं। अतिशकर लोणे का कहना है कि पात्रों में रखे नोट दिखवती की रसक में मिले है, जिन्हें

दिखवती। पुलुवार सुबसे 10 बजे से पहले ही खाड़े आर थे। उनका कहना है कि वो पांच से दो सालपुर्णिय दूर खोने पर रहे हैं। नोट सक्तेबरेन बंद होखे की जानकारी नहीं मिल पाई है। इसी वजह से बैंक में नोट नहीं बदलवा पाए जा रहे हैं। नोट बदलने के लिए भोपाल आरबीआई बदलवाने में ही जना हो सक्ती है। नोट बदलने में करीब 2 घंटे का समय लग गया।

बालाघाट में दोहरे इत्याकांड से जसमनी

घर में मिली मां-बेटी की रक्तजंजित आसनी

सिवनी में भूकंप के झटके

■ डिजिटल ग्लोबल रिपोर्ट
 बालाघाट। बालाघाट जिले के कोरवाली थानांतर्गत सरगुडु होटल के पीछे स्थित के मकान में रहने वाली बुढ़ मां तथा उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। घर में पुलुकर आरोपी ने पापी वारु से सिर पर हल्ला कर दोहरे इत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने दोषारोपण का प्रकरण दवा कर आरोपी के संसंध में पकड़ाली प्रसिं कर दी है।

कोरवाली थाने के प्रभार पारकने के अडुवार प्रेसडन डेड सिवनी प्रेसडन के पीछे कोरवाली थानेकरा प्रसडन (70) अतंनक 45 घण्टे तक पुलुकराली थानेकरा पुलुकराली के सभस सिवनी के मकान में रहती थी। पुलुकर सुबसे प्रसिंसेवने में उन्ने देखा था, परंतु दिन च समाज को दिखवती

नाही है। प्रसिंसेवने ने देर समय उनकरे घर में जाकर देखा तो रसोई में मां-बेटी का रक्तजंजित शव पाड़ा हुआ था। दोनों के सिर पर पापी वारु से हल्ला किया गया था। पुलुकर सिवनी पर पुलिस ने पकड़वाने में पुलुकरवाली को सभस करारों के बाद पारकने के लिए पिकार दिया। पुलुकराली के सभस में मकान तला अनज जकर और घर की खाली बालुद दूजे हैं। इससे स्पष्ट है कि बालुद को दूरे के उद्देश्य से अंजाम दिया और पकड़ ही गया है। आरोपी ने घर में पुलुकर बालुद को अंजाम दिया और पकड़ ही गया। इससे जिला होले है कि आरोपी उन्ने प्रसिंसा का था। पुलिस ने हलाक साकलर दवा कर आरोपी के संसंध में पकड़ाली प्रसिं कर दी है। डेडे में लोके लोकेकी केवारी को खाली कर जा रही है। वहीं पुलुकरसेवने से भी जानकारी ली जा रही है।

सिवनी में भूकंप के झटके

■ डिजिटल ग्लोबल रिपोर्ट
 सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी में पुलुवार दोपहर करीब 12.55 बजे भूकंप के हलके झटके महसूस हुए। जिसके बाद लोग डर के साक्ष्य पाए और दुकानों से बाहर निकल आए। निरंतर संतार को संसालीवती में भी बस भूकंपिय हल्लाकत दवा हुई है। सिविर पैदा पर सुबसे को तीव्रता 2.8 तक की गई है। सिवनी स्थिति सुभासुराज और बुढ़ा सिवनी, जनात नगर, डोडरी छतरपुर स्थिति अडवालरक के गावों में पीछे कुछ मडोनी से भूकंप के हलके झटके महसूस हो रहे हैं। इससे पहले 29, 30 सितंबर और एक अडवालर को भूकंप के हलके झटके महसूस किए गए थे। एक अडवालर को भूकंप 9.20 बजे को 2.8 तीव्रता का सुबसे दवा हुआ था। 29 सितंबर को सिविर पैदा पर 2.9 थ 30 सितंबर को 1.8 तीव्रता का भूकंप दवा किया था।

Rajasthan

राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े ठिकानों पर डीडी के छापे, गहलोत बोले- सिर्फ हमारे नेताओं पर ध्यान

नई दिल्ली, (एजेंसी) राजस्थान में एक बड़ा फिर डीडी एक्शन में है। जल जीवन मिशन पोस्टाल मामलों को लेकर शुक्रवार सुबह डीडी की टीम ने राजस्थान में 25 जगहों पर छापाया। कीपुस्तक के मुताबिक डीडी राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना में दखल अनियमितताओं के

संबंध में तलाशी से रही है। यह छापाया जा चुका है। 25 ठिकानों पर छापाया की गई है, जिसमें अधिकांश सूबेय अग्रवाल के ठिकानों की शामिल हैं। पिछला विमल विद्युत विभाग की परीक्षा है।

इस छापाये पर सीएम गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'जिना होने बड़े मुकाम में



आपका अपराध नहीं तो रोहे? AGENCIES को साथ धरन देना चाहिए. ED को थपथप सिर्फ राजनेताओं पर जा रहा है. हमारे अपराध डोटिंगवा व से पूरे के पास कुछ नहीं मिला ED को. सरकार निरपेक्ष है लिए ED का उपयोग करना गलत है. चुनाव जीतने के लिए ED खोसाई है जाँरे विनयेनी राजनीति से

रही है.' आरको बताने है कि कुछ दिना पलेने ती प्रवर्तन निदेशालय (डीडी) ने जाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अरव्ह गहलोत के बेटे के साथ गहलोत को पेश होने का समय जारी किया था तो नहीं दूसरी लक कबसे प्रमुख गौबर्न सिंह डोटिंगवा के जवरू विदेश आरव्ह व छापाये की थी.

Jharkhand

Bihar

Manipur

सड़क हादसे के बाद सिपाही ने की हवाई फायरिंग, फिर थाने में खुद को मार ली गोली

कोलंबिया (सिमरगा), (एजेंसी) सिपाही थाने में तैनात सिपाही सारवजीत कच्छप ने अपने सरकारी हथियार से खुद को गोली मार ली। मीकै पर ही उठने मीत हो गई। वह घटना कोलंबिया थाना परिसर में है। सुबह रात कब्र अला बजे घटी। एएसपी ने कहा कि अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी नहीं। पुलिस इर सिंदर पर जांच कर रही है। जल्दबाजी के अनुसार सारवजीत सुबह को टोकरा बंद कर के बरखलीस की ओर जा रहा था। उन्ही क्रम में ललित के समीप कार एक ब्लाक से टकरा गई। इस टकराव से ब्लाक बकर पेशा रहा और सिंदरि बहा घुलता हो गया। इसके बाद आक्रोशित प्रमोन्नेने ने टोपे बजाकर के

सम्पे के लिए लिया। भीड़ देना सारवजीत ने हवाई फायरिंग कर दी। इसके बाद प्रमोन्ने भाग खड़े हुए। इनक सारवजीत भी हथियार लेकर जलत की ओर भाग गया। कोलंबिया थाने में तैनात सिपाही सारवजीत कच्छप ने सुबह रात करीब आठ बजे थाना परिसर में खुद को गोली मार से उड़ा लिया। इस घटना को उसने अपने सरकारी हथियार से ही अंजाम दिया। इससे पहले सारवजीत ने थाना में एक वाहन दुर्घटना के बाद हवाई फायरिंग की थी और जलत की ओर भाग गया था। बाद में पुलिस ने उसे बंधा और थाने लेकर आई है।

तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा... जीजा ने साली के साथ दोस्ती कर बनाया अश्लील वीडियो, वायरल किया

बैतिया, (एजेंसी) बिहार में एक अजीब मामला खरने अया है। एक पति ने पले तो दोस्ती के लिए पत्नी को छोड़ दिया। फिर अपनी पत्नी से दोस्ती कर साली अश्लील वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रमोन्ने बैतिया के ललैरवाथ थाने के गाँव का है। बताया गया है कि सरगहन पुरेसे ग्वाँबिना ने खलने के साथ अश्लील हकम की ओर फिर उरकक खींचने की बहा किया। जब उससे पत्नी और सरगहन पक्ष के लोपे ने डाटा दी उसने इंटरनेट पर बह करले हुए वीडियो को बनारल कर दिया कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। इस संबंध में प्रमोन्ने ने पति व सरगहन पक्ष पर साक्षर थाने में प्रमोन्नेकी दर्ज करा है। पुलिस प्रमोन्नेकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मणिपुर में एयरलिफ्ट कर भेजे गए असम राइफल्स के 200 जवान

असम, (एजेंसी) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की हत्या के बाद मणिपुर में सुरक्षात्मक एक्शन में आ गए हैं। खबर है कि असम राइफल्स के सैकड़ों जवानों को एयरलिफ्ट कर मीहैर लाया गया है। यहां सुरक्षात्मक उपायवाही को डेर कर रहे हैं। खासतौर से प्रमोन्ने व अन्य घुसपैठियों को भी प्रमोन्ने बहाया जा रहा है। अलग-अलग जगह जा रही है कि वे सशस्त्र की हत्या में शामिल हो सकेंगे। एक अधिकारी ने नाम न छापने के लिए फाँटुना ठाठमस को बलाब, 'अश्लीलवादी' के खिलाफ एक्शन में अतिरिक्त बर्तमों को एयरलिफ्ट किया

गया था, कुछ को सड़क मार्ग से भी मीहैर भेजा गया था। वे उखाड़ीकी की पहचान करेगे, जो शहर में छिपे हैं या इधर-उधरवा सीमा के जाँरे सीमा पार कर गए हैं।' उन्हीने बताया कि असम राइफल्स अला प्रमोन्नेकी के साथ भी काम कर रही है। खबर थाने है कि मणिपुर में और खासतौर से मीहैर में कई सुरक्षात्मक तैनात हैं। अब वहाँ असम राइफल्स का पड़ौना करके असम थाना जा रहा है। दरअसल, इस वक के पास भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा का भी प्रमोन्ने है। असम राइफल्स ने बुकिना आरिफोन्नेकी को सड़क बहाकर मणिपुरमन मिले में काम पर लगा रहा है।



खेल



सिनेमा



विश्व कप में सबसे बड़ी जीत के साथ सेमीफाइनल में भारत

◆ श्रीलंका को 55 रन पर समेटा, शमी ने बरपाया करार



सबसे बड़ी जीत की बत करे तो इस मामले में अतिरिक्त पले खतन पर है। उसने इसी संकेतक में नीरलतके के खिलाफ दिल्ली में 309 रन से जीत हासिल की थी। श्रीलंका ने टैंगे जीकरप पले गेठबाजी का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में अलरिफ्ट कर 357 रन बहा। कच्छप में सीरीसकी टीम 55 रन पर सिंटर गई। बहने में बहा के खिलाफ एक उरकक दूसर

नुकसम खरोर है। इससे पहले इसी खतन फ्रिंज कप में बह 50 रन पर अलाआउट हो गई है। श्रीलंका के पाँच बल्लेबाज शूय पर आउट हुए- श्रीलंका की पाँच की बत करे तो उसके लिए सबसे उपाय 14 रन करनु ररिजाने में बहा। अपने अरकक मीरन लीला और पेंसेनेने केपुन ने 12-12 रन बहा। श्रीलंका के पाँच बल्लेबाज शूय के खरोर पर आउट हुए। पपुन निरकके, दिव्य

करपारले, सरदीय समरकिणका, दुदरु हेमंता और दुयमंथ खमीर खाला नहीं खोल पाया। पारी को पाले ही गेप पर जलसरी मुगुलह ने पपुन निरकके को शूय में एक्सापेक्नु कर दिया। इस डाटके से श्रीलंकेई टैंगे और एक उरक नती गई। भारत के लिए मोयमम शमी ने दो तैर जलसरी मुगुलह, खींड जलसना ने एक-एक रिक्टेड किया।

भारतीय गेठबाजी ने बरपाया करार- भारत के तेज गेठबाजी ने श्रीलंकेई बल्लेबाज को टिकने ही नहीं दिया। पारी की पाले ही गेप पर जलसरी मुगुलह ने पपुन निरकके को शूय में एक्सापेक्नु कर दिया। इस डाटके से श्रीलंकेई टैंगे और एक उरक नती गई। भारत के लिए मोयमम शमी ने दो तैर जलसरी मुगुलह, खींड जलसना ने एक-एक रिक्टेड किया।

बुरे फंसे एलिश यादव; नोएडा में सांप के जहर और विदेशी लड़कियों वाली पार्टी का बड़ा खुलासा



नोएडा। निप बाँस रिक्तेड एलिश यादव के खिलाफ नोएडा में पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस पर नोएडा में रेव पार्टी बनने का आरोप लग है। इसमें प्रमोन्नेकी संबंध के जाँर एक का प्रवेसल किया जा था तो रिक्टेरी लड़कियों की बुलाई जाती थी। पुलिस ने दिना कर कई शक्यों को पकड़ लिया है। पुलिस ने एलिश यादव के 6 के खिलाफ चलाया और अन्य अला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

दिना ऑरिखरन में फंसे आरपोन्ने के कजने से 20 मिलीरिक्टेड जाँर और 9 सिंदा साँप कागमर फाँट। निरमंने 5 कोकर, एक अरक, दो दुपुली शक्यों और एक टट लेनर (पोडा डक) बहने पाटी में नसे के लिए रिक्तेड जाता था। पुलिस यादव ससे अला आरपोन्ने के खिलाफ बतन जारी रखेगा अतिरिक्त 1972 की रिक्टेड भागों और आरपोन्नेकी की बत 120-बजे दिना केस दर्ज किया गया है।

संपादकीय

कितना होगा असर

महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के हिस्सक होने के बाद सरकार भी चिंता में पड़ गई और आंदोलन को देखते हुए अनेक निर्णय लिए, लेकिन देखा होगा कि इन फैसलों का आने वाले समय में कितना असर होगा। दरअसल राज्य सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। जैसी कि आंदोलनकारी मांग कर रहे थे, मराठा को कुण्डी सर्टिफिकेट देने से जुड़ी जॉइंट संसदीय शिप्टे समिति की पहली रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा, मराठा आरक्षण से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई और यह भी कहा गया कि पिछड़ा आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर ताजा सूचनाएं जुटाएगा। मगर राज्य सरकार के इन फैसलों से मराठा समुदाय के आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा यह अभी साफ नहीं है। इस मांग को लेकर अनशन पर बैठे मोजन जरांगों का कहना है कि मराठा समुदाय को अधूरा आरक्षण स्वीकार्य नहीं होगा। वह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी जोर दे रहे हैं। यह बात मानी जा सकती है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि उससे इस मसले को हल करने की क्या राह निकलेगी। गौर करने की बात है कि राज्य में कोई भी पार्टी इस मांग केमहा खिलाफ नहीं है। शुरु से ही सभी दल और तमाम प्रमुख नेता इस मांग का समर्थन करते रहे हैं। नवंबर 2018 में ही महाराष्ट्र विधानसभा मराठा आरक्षण बिल पास कर चुकी है। उसके मुताबिक राज्य की सरकारी नोकरीयों और शैक्षणिक संस्थाओं में 16 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्थायित्व करार दिया। इस प्रावधान के बाद राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 50 फीसदी की सीमा से ऊपर जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 50 फीसदी की आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने और अन्य राज्यों में भी कास्ट सेसस करवाने की मांग जोर पकड़ने से इस विमर्श में नया आयाम जुड़ रहा है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की बात है तो उसमें आगे बढ़ने का कोई सीधा रास्ता तत्काल नहीं दिख रहा। पिछले दो दिनों में राज्य के अलग-अलग इलाकों में इसे लेकर जितर तरह की हिंसक दृश्यों को मिली है, उसके हालात और जटिल ही होंगे। अखी बात है कि मोजन जरांगों ने इस हिंसक घटनाओं से खुद को पूरी तरह अलग करते हुए अहिंसक तरीके से ही आगे बढ़ने की बात कही है। मौजूदा हालात में सभी संघर्षित तत्वों को धैर्य और समझदारी दिखाने की जरूरत है। सभी मांगों तत्काल पूरी करने की ज़िद कहीं नहीं ले जाएगी।

11/2/11

MORARI BAPU




सर-पुंज-करण

www.ChinabhaiTangadi

**झूठ बोलकर
जीत जाने से बेहतर
सच बोलकर
हार जाना...**

महिला जगत

**नवंबर माह से जुड़ा है नारी शक्ति का इतिहास,
इन दिग्गज महिलाओं का है गहरा नाता**



8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। दुनिया भर की महिलाओं को प्रोत्साहित करने, उनके मनोबल को बढ़ाने और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए विश्व के लगभग सभी देश महिला दिवस मनाते हैं। जहां महिलाओं के कार्यों, उपलब्धियों, समाज में उनकी सशक्त भूमिका को लेकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में भी महिला दिवस को अब बड़े स्तर पर जगह जगह मनाया जात है। कार्योंयों से लेकर सामाजिक कार्यधर्मों में महिला दिवस को एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं लेकिन भारत के अस्थली महिला दिवस मार्च में नहीं बल्कि नवंबर में होना चाहिए। नवंबर का महीना भारतीय महिलाओं के लिए बेहद अहम है। अपर भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो इस महीने में देश की महिलाओं ने जो किया वह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण और आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाएगी। वलिरर जानने हैं आखिर नवंबर में क्यों मनाया जाना चाहिए भारतीय महिला दिवस।

इन महिलाओं का नवंबर हुआ जन्म

◆ रानी लक्ष्मीबाई का नाता

भारत के इतिहास को जन्मने वाले अमर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को जानने हे तो हस्तों की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी उन्हें जरूर जान्य पड़ेगा। देश की पहली महिला क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म इंदौर महीने में हुआ था। 19 नवंबर को बनारस के नौलकनिंबा में जन्मी मूय मराठा राजा की पुत्री लक्ष्मीबाई। पर केवल एक पत्नी नहीं, उनका नाम एक क्रांतिकारी, सीतारंग के और पर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो पाया। ब्रिटिश शासक और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते पत्नी हस्तों की रानी रानी राखी की मिसाल बन गईं।

◆ इंदिरा गांधी का जन्मदिन नवंबर में

यहीं देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म भी इंदौर महीने में हुआ था। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर को प्रयागराज में हुआ था। उन्हें लंदे महिला के नाम से भी जाना जाता है। आजाद भारत की सबसे सशक्त महिलाओं में इंदिरा गांधी का नाम सबसे पहला आता है। दूसरी सबसे जटिल यह सभ्यताओं में उनके का निर्देशन के और पर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो पाया। ब्रिटिश शासक से लड़ते लड़ते पत्नी हस्तों की रानी रानी राखी की मिसाल बन गईं।

◆ कल्पना चावला के नाम उपलब्धि

देश तकनीकी की दिशा में जितना आगे बढ़ रहा है, देश की महिलाओं की भूमिकाओं भी उतनी ही बढ़ रही हैं। कल्पना चावला का नाम तो सुन ही होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के नाम इंदौर महीने में उतर्गणित दर्ज हुईं, जो भारत की महिला के नई शक्ति क्षेत्र के लिए भी सम्मान की बात बन गईं।

अर्थ
किया है..!

**हमारे बाद नहीं आएगा
तुम्हें चाहत का वो मजा,
तुम लोगों से कहते फिरोगे
मुझे चाहो उसकी तरह...**

Highlights

- 10-year-old girl raped, left semi-naked in Ujjain in second such case in a month
- Taj Mahal wasn't built by Shah Jahan, correct history books: PIL in Delhi HC
- 'You see tears in my eyes? What are you talking s*** for?' Mahua scolds reporter
- Sajan Prakash and Karnataka teams break National Games records
- 27-year-old doctor's partially burnt body found in hostel of Ranchi hospital
- 'You will get tired,' says PM Modi to girl holding a sketch of him; video surfaces

UCO Bank withdraws Diwali sweet distribution plan for top 10 NPA borrowers: Report

NEW DEIHI, (Agency).

The public sector lender UCO Bank has reversed its decision to distribute sweets to the top 10 Non-Performing Assets (NPA) borrowers of the PIL for Diwali this year in a statement issued on November 2.

In its latest circular, the bank said, as reported by moneycontrol, "it is hereby advised that the instructions contained in the aforesaid communication stand withdrawn."

In a statement issued by the Recovery Department Head Office on November 1, the UCO Bank said that it would distribute sweet packets to top 10 NPA Borrowers of each Branch.

"The Top Management has suggested for distribution of sweet packet to the top 10 NPA Borrowers of each Branch, in line with peer PSBs, like any other valued customers, where Branch Heads need to personally meet them, greet them on the occasion of Diwali and distribute them a



sweet packet. Zonal Heads are also advised to personally meet and greet the Top 10 NPA Borrowers of the Zones on the auspicious occasion of Diwali."

Stating that the recovery of the dues from these borrowers was not an easy task, UCO Bank said that the Branch officials were facing numerous challenges regarding the same.

"Time and again it has been observed that in general there is a deterioration in Banker customer relationship once the account turn into NPA. It is not like that each and every NPA borrower is willful defaulter and not paying the

dues despite having sufficient repayment capacity. There may be certain compelling situations like business failure/loss, death of the key business persons, unavoidable circumstances etc. which also leads to the PA account turning into a NPA one. On the contrary, in some of the cases it has also been observed that only the clash of ego between the customer and Bank officials leads to the account turning into NPA."

The Kolkata-based bank's circular added, "We cannot deny the fact that a customer presently classified as NPA borrower was once a valued customer of the Bank."

Gautam Adani's renewables firm in talks for ₹14,978 crore loan: Report

NEW DEIHI, (Agency).

Gautam Adani's firm, Adani Green Energy is in talks with a group of lenders abroad to borrow 1.8 billion dollars (roughly ₹14,978 crore). The company deals in renewable energy.

The loan amount will be used in capacity-building, Bloomberg reported, citing people familiar with the deal who didn't wish to be named.

Per the agency, the Adani



Group wants to use the loan to spend on solar and wind projects.

The financial institutions the Gautam Adani-led companies are in touch with

includes Barclays Plc, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank PJSC, Rabobank and Standard Chartered Plc, reported the agency, citing sources.

The Adani Group hasn't commented on the matter as yet.

The transaction hasn't been finalized yet and could be signed before December.

This comes days after Adani Group closed a \$3.5

billion loan deal to refinance existing debt taken to purchase Ambuja Cements Limited. It was among 10 biggest loan deals in Asia this year.

These back-to-back loan deals could provide a fillip to the investor sentiment that had dampened after Hindenburg published a damaging report alleging stock market manipulation against the conglomerate.

पेंटिंग खरीदने का झांसा देकर लाखों की ठगी

◆ स्टेट साखबर सेल को शिकायत, जांच जारी

इंदौर। स्टेट साखबर सेल को एक विकल्पम पर पट्टी है, जिसमें बताया गया कि एनफर्स्टी में पेंटिंग खरीदने का झांसा देकर पेंटिंग के खाने से लाखों रुपए निकाल लिए गए। मामले में साखबर सेल पुलिस जांच कर रही है।

शिकायत में बताया गया कि परफेक्टो ने अपनी कुछ पट्टी को बेचने के लिए ट्रेट पर उसने डिजिटल फंक्सी डाली थी। उन ने उनसे संपर्क किया और 7 पेंटिंग खरीदने की बात कही टेलीग्राम पर बात हुई और सोडा भी भेजा गया। पेंटिंग डिजिटल फंक्सी शेष में करने को

बात हुई। परफेक्टो के पास भी हममें एनफर्स्टी था। एनफर्स्टी से पेंटिंग लेने की बात हुई।

इस तरह दिया या झूठा

आरोपी ने बताया कि वह पेटेंट टैम्पलर कर रहा है लेकिन निराल तो रहा है। पहले कटपर के कर पर बात कर का बोला। कुछ समय बाद झूठा दिखा कि उसका पेटेंट डिजाइन तो रहा है। वह उसके छात्रों में छोटी रकम टैम्पलर करके चेक कर ले पाता चला जाएगा कि रिस्टम में गड़बड़ी है या कोई और कारण है। उन ने किंक क्रेडर कुछ निराल दिए। परफेक्टो ने उन निरालों

का पालन किया तो उनके छात्रों से हजारों इंशर यानी लाखों रुपए निराल हुए। उन ने एनफर्स्टी जैसे तकनीकी का इस्तेमाल कर बहलाव को अंजाम दिया।

विदेशी ठगों पर धरक

स्टेट साखबर सेल एलपी लिमिटेड सिंगै का कहना है कि इस तरह की ठगी में विदेशी ठगों का हाथ होने को आसंकर है। यहां पर आरंभ होने से डिजिटल करंसी हर्ड कैश में बदल जाती है। इस मामले में जांच कर आरोपी को तलाश की जा रही है।

इंडियन पुर रिपोर्ट

इंदौर। विजयनगर पुलिस के इन्चार्ज वर आरंभ सगे है। आरंभियों ने तो अलग अलग लूट की की बहालत को अंजाम दिया था। एक लूट में पॉलिश पहना लूट पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज लेकर पहुंची थी। पुलिस इस मामले में जल्प खुलासा करेगी।

विजयनगर पुलिस के मूर्धाकि सीमा पति अरुण निवासी स्कंधि नंबर 54 के साथ बहक सवार तीन बयनपत्नी ने लूट की बहालत को अंजाम की। सीमा ने पट्टी को बहालत की। सीमा ने लूट की बहालत में जल नदीक की रींग पर ड्रपबैंग टंगे जा रही थी तो उस दौरान बहक सवार तीन बयनपत्नी ने उसके हाथ से परे घंटा। निम्नमें 5 हजार रुपये और मेथासल था। सीमा ने पुलिस को यह भी बताया था कि

उत्तके पास आरोपियों के फुटेज है। इसके अलावा पर पुलिस ने सीमा और उसके दोस्त अशोक को पकड़ा है। आरोपियों के पास से लूट पाया माल बयनपट्टी हुआ है। इसी प्रकार विजयनगर इलाके में सिस्मापॉली कंपनी में कम्प्यूटर आउटपट रिटर्न नकदपत्र के साथ मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे के लगभग कानकुंज कालेज के पास बहक सवार बयनपत्नी ने मेथासल लूट की। इस मामले में विजयनगर पुलिस ने पॉलिश पूरा बयनपत्नी निवासी बयनपत्नी और अमित पूरा सॉरिंसि निवासी मासिनि नगर को पकड़ा है। आरोपियों के फुटेज के अलावा है। दोनों मेथासल लूटने के बाद सीसीटीवी में कैच हुए थे। इसके बाद पुलिस ने बहालत कर उन्हें गिरावा लिया।

रेप पीड़िता ने दिया बेटी को जन्म

नवजात की दो दिन बाद मौत

इंडियन पुर रिपोर्ट

इंदौर। एनफर्स्टी जमान को स्टूडेंट ने निशले सलाह करके जो जन्म दिया। सहाई सहाई में प्री-मेचुरल डिजिटली होने से नवजात को दो दिन बाद ही मौत हो गई। 1 अक्टूबर को लड़की को स्टूडेंट ने बीबीएम नर्सिंग के बेड पर रेप का केस दर्ज कराया था। सहाई का उस समय करीब चार साल का था। नर्स होने की जानकारी मिली

थी। रेप पीड़िता ने एक सप्ताह पहले बच्ची को जन्म दिया। जिसमें दो दिन बाद बच्ची की मौत हो गई। इतर 14 दिन में ही एक आरोपी को जमान मिल गई। यही दुसरे आरोपी को पांच दिन पहले जमान में निराल कर जेल भेजा। आरोपी को जमान को लेकर परिवार को जानकारी नहीं मिली। अज्ञ परिवार कहे में जमान निराल करने को लेकर अज्ञति लगा रहा है। पुलिस को भी छात्र

के परिवार परदेसीपुरा धने पहुंचे। यहां पुलिस ने स्कूल के डॉक्यूमेंट के ऑफिकिनर को लेकर बुलाया था। मसमल सही सेनाह साल की बच्ची को है। यहां 1 अक्टूबर को बच्ची ने थाने में नवजाती के डिजाइन रेप का केस दर्ज कराया। बच्ची के बयान के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी का नाम और बताया। जिसे 27 अक्टूबर को निराल कर पुलिस ने जेल भेज दिया।

कोतवाली पुलिस ने पलंगे मार्च निकाला

इंडियन पुर रिपोर्ट

इंदौर। मू को कोतवाली पुलिस द्वारा गुजरात को पलंगे मार्च निकाला गया। यह पलंगे मार्च चर के विभिन्न समान धनमें, मेरांगल, पत्ती बजार सहित विभिन्न स्थानों में निकाला। इस दौरान कोतवाली थाने परगने सेलवा डिप्टी मैजिस्ट्रेट को कान प्रभावी इतिहास में बताया कि शिवालयपत्र पुनः ली आरार सहित को लेकर लगभग डेढ़दिन प्रकर को करंसी की जा रही है। विभिन्न पट्टरपत्र पर बहानों की खोज भी की जा रही है।

पत्नी पर गोली चलाणे वाला पकड़ाया

पुलिस को बताई थी हमले की कहानी

इंडियन पुर रिपोर्ट

इंदौर। करीब छह माह पहले हुए खालेला हमले के मामले में प्रसार चल रहे आरोपी को गिराफ्त कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। इसके बाद पुलिस में शिकायत की। जब पुलिस पर पहुंची थी वहाँ पर खुब मिल गया। बाद में परिवार से बात की तो बह टूट गया।

पहुंची तो मामले सारंसापर लगी। महिला से प्रारंभिक पूछताछ हुई तो यह भी डर के कारण आरोपी की बताया हुई कहानी ही सुनने लगी। जब पुलिस को लूट उनके घर पर हुई तो बहाल बह के निराल भिसे। सीसीटीवी फुटेज से भी सफर हो सका था। पुलिस के परिवार भी महिलाओं से पूछताछ की गई तो यह टूट गया। जांच की भी आरोपी परिवार से बात की तो बह टूट गया।

गंधी नगर पुलिस ने जलनेद निवासी गंधी नगर की शिकायत पर केस दर्ज किया था। आरोपी पुलिस को साथ में बाहक से लूट रहा था। सीने दौरान आरोपी ने अक्षर उसकी पत्नी को गोली मार दी। पुलिस मद्यमस्थल पर

सोशल मीडिया पर वायरल की फेक न्यूज तो होगी कार्रवाई

इंडियन पुर रिपोर्ट

इंदौर। यह कोई भी फेक न्यूज बहकाई जाती है या सोशल मीडिया पर डाली जाती है तो कार्रवाई होगी। यह कहना है कलेक्टर डॉ. इंदिरा राजा दी। कलेक्टर ने बताया कि इस तरह की खबरों पर जलनेद स्पष्टीकरण भी जारी किया है। जलनेद से भी असाह है जो फेक न्यूज को बहकाई है या फलन लगाती है तो उसे अपने न बहकाई।

कांग्रेस प्रत्याशी शुक्ला की फिसली जुवान, भाजपा के लिए वोट देने की अपील

इंडियन पुर रिपोर्ट

इंदौर। चुनाव पास आते ही अब मू निवासमभा में सभी पट्टियों के प्रभासियों का जलनेद कर जोये पर चल रहा है। मुख्य को बसिम प्रचरवी रामशिकेश शुक्ला के जलनेदपत्र के दौरान उनको नुजा बहकाइया गई शुक्ला ने इन प्रकाशपट्टी में आरंभ 17 नवंबर को कलन का बहन कलनपत्र पत्ती नहीं से विवाही बनने की अपील कर डाली। इस दौरान उनके समीप छोड़े संपर्क में पाया जा पया जा जोलते हुए उन्हें कलने का प्रबस भी कलने नकर आया। शुक्ला बीजे पीडी की बीबीसी छोड़े बसिम में शामिल हुए है और टिकट प्राप्त कर बसिम प्रचरवी के रूप में चुनाव लड़ रहे है।

दहेज में 25 लाख की मांग

इंडियन पुर रिपोर्ट

इंदौर। महिला को उसके ससुराल वहाँ में 25 लाख के लिए सतरा। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसे प्रकटाइल किया। पारक खोली निवासी मद्यमस्थल की शिकायत पर पति विराल खोली, पैना खोली, माकूमल खोली, पारं, दीक जेन, विवाह के डिजाइन करन दर्ज किया है। आरोपी दोबजे में 25 लाख करके मांग कर रहे थे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो प्रकटाइल किया गया।



DGR
Detective Group Report
सत्यकं ठहै - सजाज ठहै अभिरक्षण

YouTube Detective Group Report
SUBSCRIBE

दैनिक समाचार पत्र/ब्यूज़ पोर्टल/ब्यूज़ चैनल

Daily Newspaper
www.dgr.co.in

Worldwide News portal
www.detectivegroupreport.com

Worldwide Youtube channel
https://youtube.com/DETECTIVEGROUPREPORT

समाचार, विज्ञापन और समूह से जुड़ने के लिए संपर्क करें

+91 99110 30505

Email:- dgrnewsnetwork@gmail.com